



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 फाल्गुन 1944 (श०)
(सं० पटना 198) पटना, बृहस्पतिवार, 2 मार्च 2023

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना
21 फरवरी 2023

सं० नि०को०-01/2022-530/वि०स०। बिहार विधान सभा सचिवालय (भरती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2018 के नियम 8(ख) के अधीन अध्यक्ष, बिहार विधान सभा सुरक्षा प्रहरी के पदों पर भरती की पद्धति/पद्धतियाँ, पाठ्यक्रम, विषय, परीक्षा का आकार, अंक एवं परीक्षाओं के संचालन के विनियमन के संबंध में अधिसूचना संख्या-नि०को०-1/2022-2363, दिनांक-08.11.2022 द्वारा निर्गत 'बिहार विधान सभा सचिवालय (सीधी भरती की पद्धतियाँ) आदेश, 2022' के परिशिष्ट में निम्नांकित संशोधन करते हैं:-

- परिशिष्ट के पद्धति/आकार/अंक के अन्तर्गत निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-
“सर्वप्रथम एक (वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय) परीक्षा ऑफलाइन/ओ०एम०आर० (OMR) शीट के माध्यम से आयोजित होगी।”
- परिशिष्ट की कंडिका-7 में परीक्षा शुल्क के अन्तर्गत निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:-
“बिहार राज्य के मूल निवासी अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वे किसी भी कोटि/वर्ग के महिला / पुरुष हों, के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य-675/(छः सौ पचहत्तर) रुपये तथा बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग/कोटि की महिला अभ्यर्थियों एवं थर्ड जेन्डर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 180/- (एक सौ अस्सी) रुपये है।”

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
असीम कुमार,
उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 198-571+25-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>